



भारत का राजपत्र The Gazette of India


असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 231]

नई दिल्ली, बुधस्पर्तिवार, सितम्बर 5, 2002/भाद्र 14, 1924

No. 231]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2002/BHADRA 14, 1924

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2002

7% बचत बांड, 2002

फा. सं. 4(13) डब्ल्यू एण्ड एम/2002.—भारत सरकार एतद्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2002 से अगली नोटिस तक 7% बचत बांड /2002 का निर्गम अधिसूचित करती है। बांडों के निर्गम की शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

2. निवेश के लिए पात्रता:

ये बाण्ड-

- (i) किसी व्यक्ति, जो अनिवासी भारतीय न हो, द्वारा
 - (क) उसके या उसकी वैयक्तिक क्षमता में ;
 - (ख) संयुक्त आधार पर वैयक्तिक क्षमता में ;
 - (ग) किसी एक या उत्तरजीवी आधार पर वैयक्तिक क्षमता में ;
 - (घ) पिता/माता/कानूनी संरक्षक के रूप में किसी अवयस्क की तरफ से ;

- (ii) अविभाजित हिन्दू परिवार द्वारा धारित किए जा सकते हैं।

3. निवेश की सीमा

इन बाण्डों में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

4. कर-रियायत

- (i) आयकर: इन बांडों पर ब्याज को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट होगी।
- (ii) सम्पत्ति कर- इन बांडों पर सम्पत्ति-कर अधिनियम 1957 के अन्तर्गत सम्पत्ति-कर से छूट होगी।

5. निर्गम मूल्य

- (i) ये बांड सममूल्य अर्थात् 100.00 रुपए प्रतिशत पर जारी किए जाएंगे।
- (ii) ये बांड 1000 रुपए (अंकित मूल्य) की न्यूनतम राशि और उसके गुणजों में जारी किए जाएंगे। तदनुसार, इनका निर्गम मूल्य प्रत्येक 1000 रुपए (नामिनल) के लिए 1000 रुपए होगा।

6. अभिदान

इन बांडों के लिए अभिदान नकद/ड्राफ्ट/चैक के रूप में होगा। चैक या ड्राफ्ट नीचे पैराग्राफ-10 में विनिर्दिष्ट बैंक, प्राप्ति कार्यालय के पक्ष में आहरित होने चाहिएं और उस स्थान पर भुगतान योग्य हों, जहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

7. निर्गम की तारीख

स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में बांडों के निर्गम की तारीख अभिदान की नकद प्राप्ति की तारीख या ड्राफ्ट/चैक को वसूल करने की तारीख, जैसा भी मामला हो, होगी। बांड बही खाते के रूप में बांडों के मामले में यह नकद देने की तारीख या ड्राफ्ट/चैक की वसूली की तारीख से खुलेगा (निर्गमित होगा)।

8. प्रारूप

- i) ये बांड स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में जारी किए जाएंगे या धारक के **बांड बही खाता** नामक खाते में जमा रहेंगे।
- क) बांड बही खाते के रूप में जारी किए जाएंगे और भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय या नीचे पैरा 10 में विनिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत अनुसूचित बैंक की किसी शाखा तथा एसएचसीआईएल में रखे जाएंगे। धारित राशि का प्रमाणपत्र, जैसा अनुबन्ध-I में विनिर्दिष्ट है, बांड बही खाते में बांडों के धारक (फार्म एक्स या फार्म वाई, जैसा लागू हो) को जारी किया जाएगा।
- ख) स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में बांड नीचे पैरा 10 (i) (क) में उल्लिखित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही जारी किए जाएंगे।

- ii) जहाँ बांड फार्मों की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से अभिदान की प्राप्ति पर स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में बांड तत्काल जारी नहीं किए जा सकते, वहां प्राप्त करने वाला कार्यालय अभिदाता को उसके द्वारा प्रस्तुत अभिदान के मूल्य के लिए अनंतिम रसीद जारी करेगा ।
- iii) एक प्रारूप में जारी बांड, नीचे दूसरे प्रारूप में रूपान्तर का पात्र नहीं होगा।

9. आवेदन पत्र

- (i) बांडों के लिए आवेदन अनुबंध 2 के रूप में इसके साथ लगे फार्म “क” या उससे मिलते-जुलते किसी अन्य फार्म में किए जा सकते हैं जिसमें राशि और आवेदक के पूरे नाम व पते का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो।
- (ii) आवेदन-पत्र के साथ ऊपर पैरा 6 में दर्शाए अनुसार नकद/ड्राफ्ट/चैक के रूप में आवश्यक भुगतान लगा होना चाहिए।

10. प्राप्त करने वाले कार्यालय

- (i) बांड बही खाते के रूप में बांडों के लिए आवेदन पत्र
 - (क) अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, (फोर्ट और बायकुला) कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, चेन्नई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों; अथवा
 - (ख) भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं, सम्बद्ध बैंकों और अनुबंध 3 में यथानिर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों, चार निजी क्षेत्र के बैंकों तथा एससीएचआईएल
 - (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी तरफ से समय-समय पर यथानिर्दिष्ट कोई अन्य बैंक या बैंक की शाखाओं तथा एससीएचआईएल, जहां पर आवेदनपत्र प्राप्त किए जाएंगे।
- (ii) स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में बांडों के लिए आवेदन-पत्र ऊपर उप-पैरा (i) (क) में उल्लिखित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही प्राप्त किए जाएंगे।

11. नामांकन

- (i) बांड का कोई अकेला धारक अथवा अकेला उत्तरजीवी धारक व्यक्ति के रूप में इस

अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र “ख” (अनुबंध-4) में उसके समीपस्थ, जैसा भी मामला हो, एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामजद कर सकता है, जो उसकी मृत्यु की दशा में और उस पर मिलने वाले भुगतान के हकदार होंगे।

- (ii) जहां कोई राशि दो या अधिक नामजदों को देय है और ऐसा भुगतान देय होने से पहले उनमें से एक या दूसरे की मृत्यु हो जाती है तो बांड पर हक जीवित नामजद या नामजदों का होगा और उस पर देय राशि का तदनुसार भुगतान कर दिया जाएगा। धारक की मृत्यु से पूर्व नामजद या नामजदों के मामले में धारक नया नामांकन कर सकता है।
- (iii) किसी नाबालिग के नाम से जारी बांडों के संबंध में कोई नामांकन नहीं किया जाएगा।
- (iv) बांड के किसी धारक द्वारा किया गया नामांकन फार्म “ख” अथवा उसके समीपस्थ, जैसा भी मामला हो, में नये नामांकन द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है अथवा अधिसूचना के साथ संलग्न फार्म “ग” में प्राप्तकर्ता कार्यालय को लिखित में नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। (अनुबंध-5)
- (v) प्रत्येक नामांकन और प्रत्येक निरस्तीकरण या परिवर्तन, प्राप्त करने वाले कार्यालय में दर्ज किया जाएगा जहां से बांड जारी किया गया है और यह ऐसे पंजीकरण की तारीख से प्रभावी होगा।
- (vi) यदि नामजद नाबालिग है तो बांड का धारक नामजद की नाबालिगता के दौरान मृत्यु होने की हालत में बांड/देय राशि प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

12. हस्तान्तरणीयता

बांड, बांड बही खाते और स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में अनुबंध 6 क अथवा 6 ख (जैसा लागू हो) में दिए उचित अंतरण प्रपत्र के अनुसार निष्पादन तथा धारक द्वारा शपथ पत्र द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित किसी रिश्तेदार को उपहार देने के सिवाय, अंतरण योग्य नहीं होंगे। रिश्तेदारों की एक सूची अनुबंध-7 में दी गई है।

13. ब्याज

बांडों पर प्रति वर्ष 7% की दर से ब्याज लगेगा। असंचयी बांडों पर ब्याज ऊपर पैरा 7 के

अनुसार निर्गम तिथि से अर्धवार्षिक अंतरालों पर देय होगा या संचयी बांडों पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्धित दर पर देय होगा तथा यह अभिदाता की इच्छा पर मूल के साथ परिपक्वता पर देय होगा। परवर्ती मामले में, बांड की परिपक्वता मूल्य प्रत्येक 1000 रूपए (नामिनल) के लिए 1511 रूपए (मूल और ब्याज) होगा। असंचयी बांडों के लिए विकल्प देने वाले धारकों को उपरोक्त पैरा 7 के अनुसार निर्गम की तारीख से 30 जून, 31 दिसम्बर, जैसा भी मामला हो, तक और उसके बाद अर्धवार्षिक रूप से 1 जुलाई और 1 जनवरी को ब्याज अदा किया जाएगा। स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में बांडों पर तथा “ बांड बही खाते” के रूप में बांड के मामले में ब्याज निवेशक/धारक द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार धारक के बैंक खाते में चैक/वारंट या ईसीएस द्वारा अदा किया जाएगा।

14. बांडों के एवज में अग्रिम/व्यापारिकता

बांडों का गौण बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा तथा ये बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आदि से ऋण हेतु संपार्श्विक के रूप में पात्र नहीं होंगे।

15. वापसी-अदायगी

बांड निर्गम की तिथि से 6 (छह) वर्ष की समाप्ति पर, वापसी-अदायगी के योग्य होंगे।

16. दलाली

भारतीय रिजर्व बैंक के प्राप्त करने वाले कार्यालयों के साथ पंजीकृत लोक भविष्य निधि तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के एजेंटों सहित दलालों को प्रति 100 रूपए पर 0.50 रूपए (पचास पैसे केवल) की दर पर और ऊपर पैरा 10 (ख) तथा (ग) में सूचीबद्ध प्राप्त करने वाले कार्यालयों के साथ पंजीकृत लोक भविष्य निधि तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के एजेंटों सहित दलालों को प्रति 100 रूपए पर 1.00 रूपए (एक रूपया केवल) की दर पर तथा अधिकृत बैंकों को उनके द्वारा या उनके ग्राहकों द्वारा दिए गए तथा उनकी मुहर लगे आवेदन पत्रों को देने पर भी दलाली का भुगतान किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
धीरेन्द्र स्वरूप, अपर सचिव (बजट)

फॉर्म "X"
(असंघयी)

अनुबंध-1
भारत सरकार
धारण प्रमाणपत्र
7% बचत बांड 2002
बांड बही खाता सं०.
[पैरा 8(i) (क) देखें]

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि श्री/श्रीमती.....नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार.....(रिजर्व बैंक कार्यालय/बैंक शाखा का नाम) में बांड बही खाता संख्या.....में धारित 7% बांड 2002 के धारक है। इन बांडों पर छमाही आधार पर देय 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

इसे भारत सरकार की दिनांक.....की अधिसूचना संख्या.....में निर्धारित की गयी शर्तों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम

शाखा कूट संख्या

कार्यालयीन मुहर

1. (नाम.....) 2. (नाम.....)
पदनाम पदनाम

क्रम सं०.....पर

नामांकन पंजीकृत

प्राप्तकर्ता कार्यालय के प्रधान/
उनसे अगले अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: यह प्रमाणपत्र अपरक्राम्य है।

बांड बही खाता में धारित बांडों के ब्यौरे

क्र० सं०	निवेश		अंतरण		वापसी- अदायगी की निर्दिष्ट तारीख *	वापसी-अदायगी		शेष	बैंक की मुहर सहित अद्याक्षर
	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि		दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* अंतरण के मामले में वापसी-अदायगी की निर्दिष्ट तारीख का उल्लेख किया जाए।

फार्म "Y"
(संचयी)

अनुबंध-I
भारत सरकार
धारण प्रमाणपत्र
7% बचत बांड 2002
बांड बही खाता सं०.
[पैरा 8(i) क देखे]

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि श्री/श्रीमती.....नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार.....(रिजर्व बैंक कार्यालय/बैंक शाखा का नाम) में बांड बही खाता संख्या.....में धारित 7% बचत बांड 2002 के धारक है। इन बांडों पर छमाही आधार पर देय 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

इसे भारत सरकार की दिनांक.....की अधिसूचना संख्या.....में निर्धारित की गयी शर्तों के आधार पर जारी किया जा रहा है।

बांडों का परिपक्वता मूल्य प्रति रुपये 1,000/- के लिए रुपये 1511/- (मूल राशि और ब्याज की राशि) होगा (नॉमिनल)।

प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम
शाखा कूट संख्या
कार्यालयीन मुहर

1. (नाम.....) 2. (नाम.....)
पदनाम पदनाम

क्रम सं०.....पर
नामांकन पंजीकृत

प्राप्तकर्ता कार्यालय के प्रधान/
उनसे अगले अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: यह प्रमाणपत्र अपरक्राम्य है।

बांड बही खाता में धारित बांडों के ब्यौरे

क्र० सं०	निवेश		अंतरण		वापसी-अदायगी की निर्दिष्ट तारीख *	वापसी-अदायगी		शेष	बैंक की मुहर
दिनांक	राशि (नामिनल)	दिनांक	राशि (नामिनल)	राशि	दिनांक	राशि (नामिनल)	नामिनल	परिपक्वता मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* अंतरण के मामले में वापसी-अदायगी की निर्दिष्ट तारीख का उल्लेख किया जाए।

अनुबंध-2
(फार्म क)
[पैरा 9 देखें]

7% बचत बांड 2002 के आवेदन पत्र

(आवेदन पत्र भरने से पहले हिदायतें ध्यान से पढ़ लें)

(कृपया बड़े अक्षरों में लिखें और उचित बॉक्स में सही () का निशान लगाएं)

मैं/हम 7% बचत बांड 2002 के अभिदान के रूप में
अभिदान की राशि रुपये में की राशि
रु०.....(रुपये.....) की राशि प्रस्तुत
करता हूँ/करते हैं ।

भुगतान किया नकदी [] चैक [] मांग ड्राफ्ट []
संख्या..... दिनांक.....
जिस पर आधारित.....
(बैंक/शाखा)

मैं/हम व्यक्ति के रूप में [] हिन्दू अविभक्त परिवार
के कर्ता के रूप में [] अल्पवयस्क की ओर से
आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

अल्पवयस्क का रिश्ता-पिता [] माता [] कानूनी
अभिज्ञक []

धारण की पद्धति:-

- [] एकल
[] संयुक्त
[] कोई एक या उत्तरजीवी

स्थिति [] निवासी
[] अल्पवयस्क

दलाल का नाम:

कूट संख्या:

पता:

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए:

दलाली की राशि का

भुगतान किया रु०

आवेदन पत्र सं०

दिनांक:

अदाकर्ता बैंक के नाम की तारीख:

संपर्क कक्ष को अंतरण की तारीख:

विशेष चालू खाते में जमा की तारीख:

सरकारी खाते में जमा की तारीख:

स्टाक प्रमाणपत्र संख्या/बांड बही खाता संख्या:

प्रमुख/शाखा प्रबंधक

**प्राप्तकर्ता कार्यालय की रबड़ की
मुहर पूरे पते सहित**

मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें नीचे उल्लिखित रूप में बांड जारी किये जाएं

[] मेरे/हमारे नाम पर बांड बही खाता खोला जाए ।

[] रु०.....के मूल्यवर्ग का स्टॉक प्रमाणपत्र

[] मेरे/हमारे बांड बही खाता संख्या.....में जमा करें ।

(केवल भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही जारी)

मैं/हम ब्याज.....@ परिपक्वता/संचयी []@

अर्धवार्षिक-अंसचयी []@ आहरित करना चाहता हूँ/चाहते हैं।

बैंक खाते में जमा करने की स्थिति में

बैंक शाखा का नाम.....

बचत/चालू खाता संख्या.....

(प्रत्येक कार्य के बाद एक बॉक्स खाली छोड़कर स्पष्ट अक्षरों में लिखें)

पहले आवेदक/हि.अ.प./अल्पवयस्क का पूरा नाम

लिंग:पु० [] स्त्री []

[illegible]

पिता/माता/कानूनी अभिरक्षक (अल्पवयस्क के लिए) हिं.अ.प.के कर्ता/मुख्तारनामा धारक का नाम

[illegible]

जन्म तिथि (अल्पवयस्क के मामले में)

--	--	--	--	--	--

दिन माह वर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले से पंजीकृत मुख्तारनामे/हि.अ.प. के मामले में पंजीकरण संख्या

--	--	--	--	--	--

पहले आवेदक (नाम फिर से न लिखें) का पता

[illegible]

दूसरे आवेदक का पूरा नाम और पता

[illegible]

[illegible]

तीसरा आवेदक

+ अंगूठे का निशान लगाने पर

हिन्दू अविभक्त परिवार घोषणा फार्म
(केवल तभी जब आवेदक हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता हो)

लिंग:पु० [] स्त्री []

५

[illegible]

पहले आवेदक के सामने दिये गये पते पर रहता हूँ और पूरी निष्ठा से यह पुष्टि करता हूँ कि मैं हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता हूँ, जिसकी संरचना इस प्रकार है

[illegible]

(हिन्दू अविभक्त परिवार का नाम व पता)

और इस प्रकार मुझे उक्त हिन्दू अविभक्त परिवार के नाम पर धारित 7% बचत बांड 2002 में निवेश, करने अंतरण करने अथवा अन्यथा लेन-देन करने के पूरे अधिकार प्राप्त है।

हिन्दू अविभक्त परिवार (हिन्दू अविभक्त परिवार का नाम)
कं लिए और की ओर से नमूना हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

कर्ता के हस्ताक्षर

बचत बांड के लिए अनुदेश और मार्गदर्शी सिद्धांत

1. बांड में निवेश के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।
2. अभिदान के लिए दिये गये चेक आवेदन प्राप्त करने वाले बैंक/प्राप्ति कार्यालय के पक्ष में आहरित तथा उस स्थान पर देय होने चाहिए जहां कि आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जाता है ।
3. यदि आवेदन कानूनी अभिभावक द्वारा नाबालिग (अल्पवयस्क) की ओर से किया जाता है तो सक्षम न्यायालय (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम (1890 का अधिनियम) के प्रावधानों के अधीन) द्वारा प्रदत्त अभिभावकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
4. यदि नाबालिग आवेदक हो, तो म्युनिसिपल या अन्य सक्षम प्राधिकारी, चर्च, जन्म के पंजीयक या जिलाधीश, ग्राम पंचायत के प्रमुख या स्कूल के मुख्याध्यापक द्वारा नाबालिग का नाम और जन्मतिथि घोषित करते हुए जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए (एक जेरोक्स प्रति सहित) ।
5. आवेदन पत्र पर आवेदक/को के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान होने चाहिए । अंगूठे के निशान के लिए 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों से साक्ष्य दी जाना चाहिए ।
6. यदि आवेदन पत्र पर निवेशक से इतर किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो तो आवेदन पत्र के साथ हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकार देने संबंधी मुख्तारनामा संलग्न किया जाना चाहिए । मुख्तारनामे में बांड के अधीन देय ब्याज और मूलधन प्राप्त करने और/या बांड के बेचने या अंतरण का स्पष्ट प्रावधान शामिल होना चाहिए मुख्तारनामा शर्तहीन भी होना चाहिए । यदि मुख्तारनामा विदेश में निष्पादित किया गया हो तो वह उस स्थान के नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए जहां इसे निष्पादित किया गया है और भारत में नये सिरे से नोटरीकृत (विधिव मुहर लगाते हुए) होना चाहिए ।
7. बचत बांड के लिए आवेदन करने वाले हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता को उससे संलग्न फार्म में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए ।
8. बांड बही खाते के रूप में बांड बांडों के मामले में **एकल धारक** (नाबालिग से भिन्न) द्वारा फार्म "ख" या उसके जैसे फार्म में नामांकन किया जा सकता है । किया गया नामांकन, यथास्थिति, फार्म "ख" या "ग" में लोक ऋण कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकृत बैंक की शाखा को सूचित करके परिवर्तित/निरस्त किया जा सकता है । किया गया प्रत्येक नामांकन या उसमें किया गया परिवर्तन जारीकर्ता लोक ऋण कार्यालय/प्राधिकृत प्राप्ति कार्यालय की शाखा/निर्गम करने वाले बैंक की शाखा में पंजीकृत किया जाएगा और पंजीकरण की तारीख से लागू होगा ।
9. आवेदन पत्र दो से अधिक व्यक्तियों के मामले में किये जाने के मामले में बांड, ब्याज वारंट और भुगतान आदेश प्रथम आवेदक "और अन्य" (अन्य संयुक्त धारकों के नामों का उल्लेख किये बिना) के नाम जारी किया जायेगा ।
10. स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में बांड जारी करने की तारीख यथास्थिति नकद के रूप में अभिदान प्राप्ति की तारीख अथवा चेक/ड्रॉफ्ट की वसूली की तारीख होगी । बांड बही खाते के रूप में बांड के मामले में, इसे नकद अभिदान प्राप्त होने की तारीख अथवा ड्रॉफ्ट और चेक की वसूली की तारीख से खोला जाएगा । तथापि, ड्रॉफ्ट के रूप में प्राप्त अभिदान के संबंध में ब्याज उसे प्रस्तुत किये जाने की तारीख से देय होगा ।

11. 7 % बचत बांडो के अन्तर्गत उपलब्ध कर रियायते निम्न प्रकार है:
- (i) आय कर-बांडो पर प्राप्त ब्याज के लिए आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन आय कर से छूट प्राप्त होगी।
 - (ii) संपत्ति कर - बांड संपत्ति कर अधिनियम 1957 के अन्तर्गत-संपत्ति कर से छूट प्राप्त है।
12. बांड बही खाता तथा स्टॉक प्रमाण पत्र, दोनों के रूप में हस्तांतरणीय नहीं होंगे, सिवाय तब जबकि उन्हें अनुबंध 6क अथवा 6ख में दी अंतरण लिखत के द्वारा तथा धारक द्वारा एक शपथपत्र देकर भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित किसी रिश्तेदार को उपहार के रूप में हस्तांतरित न किया हो। ऐसा अंतरण तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक अंतरिती का नाम लोक ऋण कार्यालय/प्राधिकृत बैंक की शाखा/निर्गम के प्राप्ति कार्यालय की बहियों में बांड धारक के रूप में पंजीकृत न हो। रिश्तेदारों की एक सूची अनुबंध-7 में दी गई है।
13. बांड जारी होने की तारीख से छः वर्ष की अवधि के बाद वापसी-अदायगी के योग्य है।
14. बांड बही खाते के रूप में बांडों के आवेदन पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में प्राप्त किये जायेंगे:
- (i) (क) अहमदाबाद, बंगलूर, चेन्नई, भुवनेश्वर, मुम्बई (फोर्ट और भायखला)
गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, फानपुर, कोलकाता, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय।
 - (ख) सरकारी अधिसूचना के अनुबंध-3 में विनिर्दिष्ट भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं, सहयोगी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक, चार निजी क्षेत्र के बैंकों तथा एसएचसीआईएल।
 - (ii) स्टॉक प्रमाणपत्रों के रूप में बांडों के लिए आवेदन-पत्र केवल उपर्युक्त (i) (क) में उल्लिखित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में प्राप्त किए जाएंगे।

15. भारतीय रिजर्व बैंक के प्राप्त करने वाले कार्यालयों के साथ पंजीकृत दलालों को प्रति 100 रुपए पर 0.50 रुपए (पचास पैसे केवल) की दर पर और अधिसूचना के पैरा 10 (ख) तथा (ग) में सूचीबद्ध दलालों को और उनके साथ नामांकित लोक भविष्य निधि तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के एजेंटों को तथा अधिकृत बैंकों को उनके द्वारा या उनके ग्राहकों द्वारा दिए गए तथा उनकी मुहर लगे आवेदन पत्रों को देने पर भी प्रति 100 रुपए पर 1.00 रुपए (एक रुपया केवल) की दर पर दलाली का भुगतान किया जाएगा ।
16. बांडों का द्वितीयक बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा तथा ये बैंकों वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में पात्र नहीं होंगे ।
-

अनुबंध-3**बचत बांड कार्य का प्रहस्तन करने वाले बैंकों की सूची**

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1. भारतीय स्टेट बैंक	285
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	30
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	23
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	7
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	34
6. स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र	7
7. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	16
8. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	8
9. इलाहाबाद बैंक	34
10. बैंक ऑफ बड़ौदा	139
11. बैंक ऑफ इंडिया	32
12. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	46
13. केनरा बैंक	49
14. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	41
15. देना बैंक	39
16. इंडियन बैंक	45
17. इंडियन ओवरसीज़ बैंक	62
18. पंजाब नेशनल बैंक	168
19. सिंडिकेट बैंक	81
20. यूको बैंक	59
21. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	34
22. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	38
23. कारपोरेशन बैंक	55
24. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	11
25. विजया बैंक	43
26. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	37
27. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	48
28. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	43
29. यूटीआई बैंक लिमिटेड	29
30. स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	32
	1575

अनुबंध-4
(फार्म-ख)
{पैरा 11(i) देखें}

7% बचत बांड, 2002
नामांकन फार्म

में

[illegible]

(नाम और पता)

बांड बही खाता संख्या का धारक

@

निम्नलिखित व्यक्ति/यों को नामांकित करता हूँ जिन्हें मेरी मृत्यु होने पर बांड के अधिकार मिलेंगे/जो नीचे उल्लिखित अनुसार बांड पर फिलहाल देय राशि का भुगतान प्राप्त करेंगे :

			नामिती का ब्यौरा			
निर्गम की तारीख	राशि रुपए	वापसी-अदायगी की तारीख	नामिती का आद्याक्षरों का विस्तार देकर पूरा नाम और पता	जन्म-तिथि	धारक से संबंध	बैंक खाते का विवरण

\$ के रूप में उपर्युक्त एक मात्र नामिती आज की तारीख में अल्पवयस्क है, मैं उक्त नामिती \$\$की अल्पवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु होने पर उपर्युक्त बांड पर फिलहाल देय राशि प्राप्त करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी.....को नियुक्त करता/ करती हूं।

+ यह नामांकन के द्वारा दिनांकको किए गए औरमें आपकी बहियों में पंजीकृत किए गए नामांकन के स्थान पर है, जो इस नामांकन का पंजीकरण होने पर रद्द हो जाएगा।

@ खाता खोलने वाले बैंक द्वारा भरा जाए।

(धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

स्थान :

तारीख :

गवाह के नाम और पता सहित हस्ताक्षर :

1. -----

2. -----

स्थान :

तारीख :

\$ यदि नामिती अल्पवयस्क हो तो भरा जाए

\$\$ नामिती (अल्पवयस्क) का नाम

- यदि नामांकन पहले से किए गए नामांकन के स्थान पर न हो तो पैराग्राफ को काट दिया जाए।

अनुबंध-5

(फार्म-ग)

{देखें पैरा 11(iv)}

7% बचत बांड, 2002**नामांकन निरस्त करने की सूचना**

मैं.....(नाम और पता) इसके द्वारा निम्नलिखित बांड बही खाते के संबंध में, मेरे द्वारा किए गए दिनांक.....का नामांकन, जो लोक ऋण कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकृत बैंक की शाखा द्वारा दिनांक.....को पंजीकृत किया गया, निरस्त करता/करती हूँ।

7% बचत बांड, 2002 के ब्यौरे

जारी करने की तारीख	बांड बही खाता संख्या	राशि रुपए
--------------------	----------------------	-----------

धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान :

तारीख :

गवाहों के हस्ताक्षर और पते :

(1)

.....

(2)

.....

अनुबंध-6 क

अंतरण प्रपत्र
बांड बही खाता
(पैरा 12 देखें)

7% बचत बांड, 2002

मैं/हम

(अंतरितक/अंतरितकों)

एतद्वारा वापसी-अदायगी के लिए -----को देय बांड बही खाता संख्या.....
मे धारितरुपए के बांड की राशि/भाग होने के
 कारण.....रुपए की राशि केबांड के बांड बही
 खाते में मेरे/अपने हित को उसपर उद्भूत ब्याज के साथ

(अंतरिती/अंतरितियों)

उसके/उनके निष्पादक, प्रशासक अथवा समनुदेशिनी को समनुदेशित और अंतरित करता हूँ/करते हैं
 और मैं/हम

(अंतरिती/अंतरितियों)

उपरोक्त बांड बही खाता संख्या () मेंरुपए की राशि
 (संचयी/असंचयी) के बांडों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

ऊपर नामित अंतरितक द्वारा गवाह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित
गवाह के हस्ताक्षर, नाम, व्यवसाय और पता

अंतरिती (अंतरितियों) का नाम और हस्ताक्षर

पता

उन विकल्पों को काट दें, जो लागू नहीं होते

* इस पैराग्राफ का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब बांड का एक भाग अंतरित किया जाता है।
अंतरितक और अंतरिती के लिए गवाह भिन्न होने चाहिए।

● अवयस्क के मामले में जन्म प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि के साथ पृथक घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाए।

टिप्पणी :

- (1) एक शपथपत्र संलग्न है।
- (2) प्रपत्र को उसके निष्पादन की तारीख से एक महीने के भीतर प्राप्तकर्ता कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके नहीं किए जाने पर वह अस्वीकृत करने योग्य है।

अनुबंध-6 खअंतरण प्रपत्रस्टॉक प्रमाणपत्र
(पैरा 12 देखें)

मैं/हम

(अंतरिती)

एतद्वारा इस लिखत के मुखपृष्ठ पर यथानिर्दिष्ट.....रुपए
(.....रुपए) के स्टॉक की राशि/भाग होने वालेरुपए की
राशि के 7% बचत बांड, 2002 के अंकित स्टॉक के शेयर में मेरे/हमारे हित \$ को उस पर उद्भूत
ब्याज के साथ (अंतरिती/अंतरितियों)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

स्वतंत्र रूप से मुझे/हमें दिए गए \$ उपरोक्त स्टॉक संख्या.

..... (संचयी/असंचयी)

--	--	--	--	--	--

रजिस्ट्रार करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम

(अंतरिती)

अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें \$ एतद्वारा अंतरिती स्टॉक के धारक/धारको के रूप में पंजीकृत किए जाने पर, मुझे/हमें अंतरित सीमा तक उपरोक्त स्टॉक प्रमाणपत्र मेरे/हमारे नाम (नामों) में नवीकृत किया जाए/मेरे /हमारे \$ नाम (नामों) में परिवर्तित किया जाए।

ब्याज.....में देय है।

गवाह के रूप मेंकेदिन को

ऊपर नामित अंतरित
द्वारा निम्नलिखित की
उपस्थिति में हस्ताक्षरित (अंतरितक)

ऊपर नामित अंतरिती
द्वारा निम्नलिखित की
उपस्थिति में हस्ताक्षरित (अंतरिती)

अंतरित
जारी स्टॉक प्रमाणपत्र संख्यादिनांक.....
प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय

\$ उन विकल्पों को काट दें, जो लागू नहीं होते।

प्ररूप को भारतीय रिजर्व बैंक को उसके निष्पादन की तारीख से एक महीने के भीतर (ब्याज जारी करने के प्रयोजनार्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित 'बंद' अवधि को छोड़कर) प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके नहीं होने पर यह अस्वीकृत करने योग्य है।

अनुबंध--7
(पैरा 12 देखें)

भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 से सार

धारा 6

“रिश्तेदार” का अर्थ-किसी व्यक्ति को दूसरे का रिश्तेदार तभी माना जाएगा यदि और केवल यदि --

- (क) वे किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं ; अथवा
- (ख) वे पति और पत्नी हैं ; अथवा
- (ग) कोई एक दूसरे से इस तरीके से संबंधित है, जैसा अनुसूची I-क में इंगित किया गया है।

अनुसूची I-क

रिश्तेदारों की सूची

1. पिता
2. माता (सौतेली माता सहित)
3. पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)
4. पुत्र की पत्नी
5. पुत्री (सौतेली पुत्री सहित)
6. पिता के पिता
7. पिता की माता
8. माता की माता
9. माता के पिता
10. पुत्र का पुत्र
11. पुत्र के पुत्र की पत्नी
12. पुत्र की पुत्री
13. पुत्र की पुत्री का पति
14. पुत्री का पति
15. पुत्री का पुत्र
16. पुत्री के पुत्र की पत्नी
17. पुत्री की पुत्री
18. पुत्री की पुत्री का पति
19. भाई (सौतेला भाई सहित)
20. भाई की पत्नी
21. बहन (सौतेली बहन सहित)
22. बहन का पति

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th September, 2002

F. No. 4(13) W&M/2002.— The Government of India, hereby notifies the issue of 7% Savings Bonds, 2002 (“the Bonds”) from 1st October 2002 until further notice. The terms and conditions of the issue of the Bonds, shall be as follows:

2. **Eligibility for Investment:**

The Bonds may be held by -

- (i) an individual, not being a Non-Resident Indian -
 - (a) in his or her individual capacity, or
 - (b) in individual capacity on joint basis, or
 - (c) in individual capacity on anyone or survivor basis, or
 - (d) on behalf of a minor as father/mother/legal guardian.
- (ii) a Hindu Undivided Family.

3. **Limit of Investment :**

There will be no maximum limit for investment in the Bonds.

4. **Tax concession :**

- (i) Income-tax: Interest on the Bonds will be exempt from Income-tax under the Income-tax Act, 1961.
- (ii) Wealth tax: The Bonds will be exempt from Wealth-tax under the Wealth-tax Act, 1957.

5. **Issue Price**

- (i) The Bonds will be issued at par i.e. at Rs.100.00 per cent.
- (ii) The Bonds will be issued for a minimum amount of Rs. 1000/- (face value) and in multiples thereof. Accordingly, the issue price will be Rs. 1000/- for every Rs.1,000/-(Nominal).

6. **Subscription**

Subscription to the Bonds will be in the form of Cash/Drafts/Cheques. Cheques or drafts should be drawn in favour of the bank, Receiving Office, specified in paragraph 10 below and payable at the place where the applications are tendered.

7. **Date of Issue**

The date of issue of the Bonds in the form of Stock Certificate will be the date of receipt of subscription in cash or the date of realisation of draft/cheque as the case may be. In the case of the Bonds in the form of Bond Ledger Account, the same will be opened (issued) from the date of tender of cash or the date of realisation of draft/cheque.

8. **Form**

- i) The Bonds will be issued in the form of Stock Certificate or may be held at the credit of the holder in an account called **Bond Ledger Account (BLA)**.
 - a) The Bonds in the form of Bond Ledger Account will be issued and held with the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India or any number of branches of the banks and Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) as authorized by Reserve Bank of India specified in paragraph 10 below. A certificate of holding as specified in Annexure-1 will be issued to the holder of Bonds in Bond Ledger Account (in Form X or Form Y as may be applicable).
 - b) The Bonds in the form of Stock Certificate will be issued only at the offices of Reserve Bank of India referred to in paragraph 10(i)(a) below.
- ii) Where the Bonds in the form of Stock Certificate cannot be issued immediately on receipt of the subscription due to non-availability of the Bond forms, or otherwise, the Receiving Office will issue a provisional receipt in favour of the subscriber for the value of the subscription tendered by him.
- iii) The Bonds issued in one form **will not be eligible** for conversion into the other form.

9. **Applications:**

- (i) Applications for the Bonds may be made in Form 'A' attached hereto as Annexure-2 or in any other form as near as thereto stating clearly the amount and the full name and address of the applicant.
- (ii) Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash/drafts/cheques as indicated in paragraph 6 above.

10. **Receiving Offices**

- (i) Applications for the Bonds in the form of Bond Ledger Account will be received at:
 - (a) Offices of the Reserve Bank of India, at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai (Fort and Byculla), Kolkata, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Chennai, Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram, or
 - (b) Number of Branches of State Bank of India, Associate Banks, Nationalized Banks, four private sector banks and SCHIL as specified in the Annexure-3.

- (c) Any other bank or number of branches of the banks and SCHIL where the applications will be received as specified by the Reserve Bank of India in this behalf from time to time.
- (ii) Applications for Bonds in the form of Stock Certificate will be received only at the offices of Reserve Bank of India, mentioned in sub-paragraph (i)(a) above.

11. **Nomination:**

- (i) A sole holder or a sole surviving holder of a Bond, being an individual, may nominate in form B annexed to this notification (Annexure – 4) or as near thereto as may be, one or more persons who shall be entitled to the Bond and the payment thereon in the event of his death.
- (ii) Where any amount is payable to two or more nominees and either or any of them dies before such payment becomes due, the title to the Bond shall vest in the surviving nominee or nominees and the amount being due thereon shall be paid accordingly. In the event of the nominee or nominees predeceasing the holder, the holder may make a fresh nomination.
- (iii) No nomination shall be made in respect of the Bonds issued in the name of a minor.
- (iv) A nomination made by a holder of a Bond may be varied by a fresh nomination in Form B or as near thereto as may be, or may be cancelled by giving notice in writing to the Receiving Office in Form C annexed to the notification (Annexure – 5).
- (v) Every nomination and every cancellation or variation shall be registered at the Receiving Office where the Bond is issued and shall be effective from the date of such registration.
- (vi) If the nominee is a minor, the holder of a Bond may appoint any person to receive the bond/amount due in the event of his death during the minority of the nominee.

12. **Transferability:**

The Bonds in the form of Bond Ledger Account and Stock Certificate shall **not** be transferable except **by way of gift** to a relative as defined in Section 6 of the Indian Companies Act, 1956, by execution of appropriate Transfer Form as given in Annexure 6A or 6B (as may be applicable) and execution of an affidavit by the holder. A list of relatives is given in Annexure 7.

13. Interest :

The Bonds will bear interest at the rate of 7% per annum. Interest on non-cumulative Bonds will be payable at half-yearly intervals from the date of issue in terms of paragraph 7 above or interest on cumulative Bonds will be compounded with half-yearly rests and will be payable on maturity along with the principal, as the subscriber may choose. In the latter case, the maturity value of the Bonds shall be Rs.1511/- (being principal and interest) for every Rs.1,000/-(Nominal). Interest to the holders opting for non-cumulative Bonds will be paid from date of issue in terms of paragraph 7 above upto 30th June/31st December as the case may be and thereafter half-yearly for period ending 30th June/31st December on 1st July and 1st January. Interest on Bonds in the form of Stock Certificate and in the case of Bond in the form of "Bond Ledger Account" will be paid, by **cheque /warrant or through ECS by credit to bank account of the holder as per the option exercised by the investor/holder.**

14. Advances/Tradability against Bonds

The Bonds shall **not** be tradable in the secondary market and shall not be eligible as collateral for loans from banks, financial institutions and Non Banking Financial Company (NBFC) etc.

15. Repayment

The Bonds shall be repayable on the expiration of 6(six) years from the date of issue.

16. Brokerage:

Brokerage at the rate of Re.0.50p (Fifty paise only) per Rs.100/- will be paid to brokers including PPF and UTI agents registered with Receiving Offices of Reserve Bank of India and Re. 1/- (Rupee one only) per Rs. 100/- will be paid to the brokers including PPF and UTI agents registered with the Receiving Office listed in paragraph 10 (b) & (c) above and also to authorized banks on the applications tendered by them on behalf of their clients and bearing their stamp.

By Order of the President of India

D. SWARUP, Addl. Secy. (Budget)

ANNEXURE-1**Form 'X'****Government of India****Certificate of Holding****(Non-Cumulative)****7% Savings Bonds, 2002****Bond Ledger Account No. _____****[See Para 8 (i)(a)]**

We hereby certify that Shri/Smt. _____ is the holder of 7% Savings Bonds, 2002 held in the Bond Ledger Account No. _____ with _____ (Name of the RBI Office/Bank branch) as per details given below. These bonds will bear interest @ 7% per annum payable half-yearly.

This is issued subject to the terms and conditions laid down in Government of India Notification No. --- dated _____.

Name of the Receiving Office

Branch Code No.

Official Seal.

1. (Name-----) 2. (Name-----)
Designation Designation

Nomination Registered
at Sl.No.

Signature of the Head of
the Receiving Office/the
officer next to him.

Note: This certificate is non-negotiable.

Details of Bonds held in the Bond Ledger Account

Sl. No.	Investment		Transfer		Due Date of Repayment *	Repayment		Balance	Initials under bank's seal
	Date	Amount	Date	Amount		Date	Amount		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Due date of repayment to be indicated in the case of transfer.

ANNEXURE-1**Form 'Y'****Government of India****Certificate of Holding****(Cumulative)**

7% Savings Bonds, 2002
Bond Ledger Account No.
 [See Para 8(i)(a)]

We hereby certify that Shri/Smt.----- is the holder of 7% Savings Bonds, 2002 held in the Bond Ledger Account No.----- with-----
 ----- (Name of the RBI Office/Bank branch) as per details given below.

This is issued subject to the terms and conditions laid down in Government of India Notification No.--
 ----- dated -----

The maturity value of the Bonds shall be Rs.1511/- (being principal and interest) for every Rs.1000/- (Nominal).

Name of the Receiving Office
 Branch Code No.
 Official Seal.

1. (Name-----) 2. (Name-----)
 Designation Designation

Nomination Registered
 at Sl.No.

Signature of the Head of
 the Receiving Office/officer
 next to him.

Note: This certificate is non-negotiable.

Details of Bonds held in the Bond Ledger Account

Investment		Transfer		Due date of repayment *	Repayment		Balance		Initials under bank's seal
Date	Amount (Nominal)	Date	Amount (Nominal)		Date	Amount (Nominal)	Nominal	Maturity Value	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10

* Due date of repayment to be indicated in the case of transfer.

ANNEXURE – 2

(FORM A)

[See Para 9]

APPLICATION FORM FOR 7% SAVINGS BONDS, 2002

(Please read the instructions carefully before filling up the form)

(Please write in block letters and tick (✓) the appropriate box)

I/WE TENDER THE SUM _____
BEING THE SUBSCRIPTION TO 7 % SAVINGS
BONDS, 2002 AMOUNT OF SUBSCRIPTION
Rs. _____
(Rupees _____)
PAID BY [] CASH [] CHEQUE [] D.D.
No. _____ DATED _____
DRAWN ON _____
(BANK/BRANCH)

I/WE APPLY AS ☐ INDIVIDUAL ☐ KARTA OF
H.U.F. ☐ ON BEHALF OF MINOR

RELATIONSHIP WITH MINOR ☐ FATHER
☐ MOTHER ☐ LEGAL GUARDIAN

MODE OF HOLDING :-

[] SINGLE

[] JOINT

☐ ANYONE OR SURVIVOR

STATUS ☐ RESIDENT

[] MINOR

BROKER'S NAME :

CODE NO. :

ADDRESS :

FOR OFFICE USE ONLY

BROKERAGE PAID Rs.

APPLICATION NO.

DATED

DATE OF DEBIT OF
DRAWEE BANKDATE OF TRANSFER
TO LINK CELLDATE OF CREDIT TO
SPL. CURRENT A/CDATE OF CREDIT TO
GOVT. ACCOUNT

STOCK CERTIFICATE No. / BOND LEDGER, A/C. No.

P.C.G.M. / BRANCH MANAGER

RUBBER STAMP OF RECEIVING OFFICE
WITH FULL ADDRESS

THIRD APPLICANT

SIGNATURE / THUMB IMPRESSION OF 1ST APPLICANT

+ SIGNATURE

NAME AND ADDRESS OF WITNESS

SIGNATURE / THUMB IMPRESSION OF 2ND APPLICANT

1)

SIGNATURE / THUMB IMPRESSION OF 3RD APPLICANT

2)

NOTE : @ Interest on Stock Certificate Bonds in the form of Bond Ledger Account by credit to the bank account to the holder or by cheque/warrant.

+ In case of thumb impression.

H.U.F. DECLARATION FORM

(ONLY IF APPLICANT IS KARTA OF HUF)

I,

SEX: M. [] F. []

[illegible]

RESIDING AT THE ADDRESS GIVEN AGAINST THE FIRST APPLICANT, DO
SOLEMNLY AFFIRM

THAT I AM THE KARTA OF THE HINDU UNDIVIDED FAMILY STYLED

[illegible]

(NAME OF THE HUF AND ADDRESS)

AND AS SUCH HAVE FULL POWERS TO INVEST, TRANSFER OR OTHERWISE
DEAL IN

7% SAVINGS BONDS, 2002 STANDING IN THE NAME OF THE SAID HUF.

SPECIMEN SIGNATURE FOR AND ON BEHALF
OF THE HUF (NAME OF THE HUF)

PLACE

DATE _____

SIGNATURE OF THE KARTA

INSTRUCTIONS AND GUIDELINES FOR 7% SAVINGS BONDS, 2002

- 1) There is no maximum limit for Investment in the Bonds.
- 2) Cheque/ draft towards subscription should be drawn in favour of the bank/Receiving Office, receiving the application and payable at the place where the application is tendered.
- 3) If the application is made on behalf of a minor by the legal guardian, a guardianship certificate granted by a competent court under the provisions of Guardians and Wards Act (Act of 1890) should be produced.
- 4) In case of minor applicant, a birth certificate issued by the Municipal or other competent authority, church, Registrar of Birth/s or a Magistrate, Head of a Gram Panchayat or Head Master of a School - disclosing the name and the date of birth of the minor should be produced in original (along with one Xerox copy) for verification.
- 5) The application shall bear the signature/thumb impression of the applicant/s. The thumb mark should be witnessed by 2 respectable persons.
- 6) If the application is signed by a person other than the investor, a Power of Attorney authorizing the signatory should be submitted along with the application. The P.O.A. should contain express provision to receive interest and the principal amount due under the Bonds and/or to negotiate or transfer the Bonds. The P.O.A. should also be unconditional. In case the P.O.A. is executed abroad, it should be attested by a Notary Public of the place where it is executed and notarized afresh in India (duly stamped).
- 7) The Karta of HUF making an application for Savings Bonds should submit a declaration in the form annexed hereto.
- 8) The nomination may be made by a sole holder (other than a minor) in case of bonds in the form of Bond Ledger Account in Form 'B' or as near thereto as may be. A nomination made may be varied or cancelled by notifying PDO / branch of authorized Receiving Office/bank in Form 'B' or 'C' as the case may be. Every nomination made or variation thereof shall be registered at PDO/ branch of authorized Receiving Office/bank of issue and shall be effective from the date of registration.
- 9) In case of applications made in the joint names of more than 2 persons, the bond/s interest warrants and Payment Order/s will be issued in the name of the first applicant "and others" (without mentioning names of other joint holders).
- 10) The date of issue of bond in the form of Stock Certificate will be date of receipt of subscription in cash/ or the date of realisation of cheques/draft as the case may be. In the case of the bond in the form of Bond Ledger Account, it will be opened from date of receipt of subscription in cash or the date of realisation of draft or cheque.

- 11) Tax concession available under 7% Savings Bonds are as under :
- i) Income Tax - Interest on the bonds will be exempt from Income tax under Income Tax Act, 1961
 - ii) Wealth Tax - The bonds will be exempt from Wealth Tax under the Wealth Tax Act 1957.
- 12) Bonds both in the form of Bond Ledger Account and Stock Certificate will **not** be transferable except by way of gift to a relative as defined in section 6 of the Indian Companies Act, 1956 by execution of an instrument of transfer as given in Annexure-6A or 6B (as may be applicable) and execution of an affidavit by the holder. The transfer shall not be deemed to be complete until the name of the transferee is registered as holder of the Bond in the books of Public Debt Office / Branch of authorized bank/Receiving Office of issue. A list of relatives is given in Annexure-7.
- 13) The bond is repayable after a period of **six years** from the date of issue.
- 14) Applications for Bonds in the form of Bond Ledger Account will be received at :
- (i) (a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Bhubaneshwar, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Mumbai (Fort and Byculla), Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram.

(b) Branches of State Bank of India, Associate Banks and Nationalized Banks, four private sector banks and SHCIL specified in the Annexure 3 of the Government Notification.
 - (ii) Applications for Bonds in the form of Stock Certificates will be received only at the Offices of Reserve Bank of India mentioned at in (i) (a) above.
- 15) Brokerage at the rate of 0.50p./- (Fifty paise only) per Rs.100/- will be paid to the brokers registered with Receiving Offices of Reserve Bank and Re. 1/- (Rupee one only) per Rs.100/- will be paid to the brokers listed in Para 10 (b)&(c) of the notification and to PPF and UTI Agents enrolled with them as also to authorized banks on the applications tendered by them on behalf of their clients and bearing their stamp.
- 16) The Bonds shall not be tradable in secondary market and not eligible as collateral for loan from banks, financial institutions and NBFC, etc.

ANNEXURE - 3**List of Banks handling Savings Bonds Work**

Name of the Bank	No. of Branches
1. State Bank of India	285
2. State Bank of Bikaner & Jaipur	30
3. State Bank of Hyderabad	23
4. State Bank of Indore	7
5. State Bank of Mysore	34
6. State Bank of Saurashtra	7
7. State Bank of Patiala	16
8. State Bank of Travancore	8
9. Allahabad Bank	34
10. Bank of Baroda	139
11. Bank of India	32
12. Bank of Maharashtra	46
13. Canara Bank	49
14. Central Bank of India	41
15. Dena Bank	39
16. Indian Bank	45
17. Indian Overseas Bank	62
18. Punjab National Bank	168
19. Syndicate Bank	81
20. UCO Bank	59
21. Union Bank of India	34
22. United Bank of India	38
23. Corporation Bank	55
24. Oriental Bank of Commerce	11
25. Vijaya Bank	43
26. HDFC Bank Ltd.	37
27. ICICI Bank Ltd.	48
28. IDBI Bank Ltd.	43
29. UTI Bank Ltd.	29
30 Stock Holding Corporation of India Ltd.	32
	1575

§ AS THE SOLE NOMINEE ABOVE IS A MINOR ON THIS DATE, I APPOINT SHRI / SMT. / KUM. TO RECEIVE THE AMOUNT FOR THE TIME BEING DUE ON THE ABOVE BOND IN THE EVENT OF MY DEATH DURING THE MINORITY OF THE SAID NOMINEE §§

+ THE NOMINATION IS IN SUBSTITUTION OF THE NOMINATION DATED MADE BY ME AND REGISTERED ON YOUR BOOKS AT WHICH SHALL STAND CANCELLED ON REGISTRATION OF THIS NOMINATION.

@ TO BE FILLED IN BY THE BANK OPENING THE ACCOUNT

(SIGNATURE / THUMB IMPRESSION OF HOLDER)

PLACE:

DATE :

SIGNATURE WITH NAME AND ADDRESS OF WITNESS:

1.

2.

PLACE

DATE

\$ TO BE FILLED IN, IF NOMINEE IS A MINOR

\$\$ NAME OF NOMINEE (MINOR)

+ THE PARA MAY BE STRUCK OUT IF THE NOMINATION IS NOT IN SUBSTITUTION OF THE ONE ALREADY MADE.

ANNEXURE - 5
(FORM - C)
[See Para 11(iv)]

7% SAVINGS BONDS, 2002
NOTICE OF CANCELLATION OF NOMINATION

I _____ (Name and address) do hereby cancel the nomination dated _____ made by me in respect of the following Bond Ledger Account and registered by the Public Debt Office/ branch of the authorized Public Sector Bank on the _____ (date).

Particulars of the 7% Savings Bonds, 2002

Date of Issue	Bond Ledger Account No.	Amount Rs.

Place _____

Date _____

Signature/Thumb impression of the holder _____

Signatures and addresses of the witnesses:

1) _____

2) _____

ANNEXURE - 6A**FORM OF TRANSFER
BOND LEDGER ACCOUNT**

(See Para 12)

7% Savings Bonds 2002**I/We**

(Transferor/s)

do hereby assign and transfer my/our interest in the Bond Ledger Account of the 7% Savings Bonds, 2002 amounting to Rs.....being the amount/portion of the bonds for Rs.....held in Bond Ledger Account No.....together with accrued interest thereon, due for repayment on, to

(Transferee/s)

his/her/their executors, administrators or assignees and I/We

(Transferee/s)

do accept the Bonds in the above Bond Ledger Account No. () amounting to Rs..... (Cumulative/Non-Cumulative).

I/We

(Transferee/s)

request that I/we may be registered as the holder/s of the Bond hereby transferred to me/us and a Bond Ledger Account may be opened in my/our name/ credited to my/our Bond Ledger Account No.

*I/We

(Transferor/s)

hereby request that on the above transferee(s) being registered as the holder(s) of the Bond hereby transferred to him/them the aforesaid bond to the extent it has not been transferred to him/them may continue in my/our Bond Ledger Account No.....

Dated this _____ day of _____ Two thousand and _____

Signed by the above
named transferor
in the presence of
witness's signature,
name, occupation
and address

Name of
Transferor
&
Signature

Address

Signed by the above
named transferor
in the presence of
witness's signature,
name, occupation
and address

Name of
Transferor
&
Signature

Address

Omit the alternatives which do not apply

* This paragraph is to be used only when a portion of the bond is transferred.
Witness should be different for transferor and transferee.

- In case of minor separate declaration with birth certificate copy is to be submitted

Note : 1) An affidavit is enclosed.

2) The form should be submitted to the Receiving Office within one month from the date of execution thereof failing which it is liable to be rejected.

interest is payable at _____

As witness our hand the _____ day of _____

Signed by the above-named _____ (Transferor)

Transferor in the presence of _____

Signed by the above-named _____ (Transferee)

Transferee in the presence of _____

Transferred

Stock Certificate issued No/s _____ dated _____

Manager, Reserve Bank of India, P.D.O

\$ Omit the alternative which does not apply.

The form should be submitted to Reserve Bank of India **within one month** (excluding the 'shut' period prescribed by Reserve Bank of India from time to time for the purpose of issue of interest) from the date of execution thereof failing which, it is liable to be rejected.

ANNEXURE -7

(See Para 12)

Extract from the Indian Companies Act, 1956

Section 6

Meaning of "relative" – A person shall be deemed to be a relative of another if, and only if –

- a) they are members of a Hindu Undivided Family; or
- b) they are husband and wife; or
- c) the one is related to the other in the manner indicated in Schedule I-A.

SCHEDULE I-A

List of Relatives

- 1. Father
- 2. Mother (including step-mother)
- 3. Son (including step-son)
- 4. Son's wife

5. Daughter (including step-daughter)
6. Father's father
7. Father's mother
8. Mother's mother
9. Mother's father
10. Son's son
11. Son's son's wife
12. Son's daughter
13. Son's daughter's husband
14. Daughter's husband
15. Daughter's son
16. Daughter's son's wife
17. Daughter's daughter
18. Daughter's daughter's husband
19. Brother (including step-brother)
20. Brother's wife
21. Sister (including step-sister)
22. Sister's husband